

ग्राहक शिकायत फार्म

एटीएम लेनदेन (ट्रांजेक्शन) के लिए एक्सिस बैंक की उस ब्रांच में जमा किया जाना चाहिए जहाँ खाता (अकाउंट) है
सेवा में: शाखा प्रबंधक (ब्रांच मैनेजर)

[शहर का नाम]

1. ग्राहक की जानकारी:																					
ग्राहक का नाम:																					
एक्सिस बैंक अकाउंट नंबर :	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																				
डेबिट कार्ड / एटीएम कार्ड नंबर :	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																				
2. एटीएम की जानकारी:																					
एटीएम आईडी/स्थान, यदि आईडी उपलब्ध नहीं है :																					
एटीएम धारक बैंक का नाम :																					
3. शिकायत की प्रकृति:																					
a) नकद निकासी के संबंध में शिकायत :																					
निकासी के लिए अनुरोध की गई धनराशि :																					
एटीएम में से वास्तव में निकली धनराशि :	[₹]																				
अकाउंट से निकली (डेबिट) हुई धनराशि :	[₹]																				
लेनदेन (ट्रांजेक्शन) की तिथि :	[/ /] (दिन / माह / वर्ष)																				
लेनदेन (ट्रांजेक्शन) का समय :	[]																				
b) एटीएम में कार्ड फँस गया है :	[]																				
c) अन्य शिकायत :																					
संपर्क टेलीफोन/मोबाइल नं. _____																					
ईमेल आईडी _____																					
दिनांक: / /	कार्ड धारक के हस्ताक्षर																				

कोई न कोई समाधान हमेशा होता है

**AXIS BANK**

को _____ बजे प्राप्त हुई।

शिकायत का संबंध:

नकद निकासी

7

कार्ड फँस गया है

11

हस्ताक्षर / मोहर

**AXIS BANK**